



धनु राशि
वाले

वर्ष 2018 में

क्या उपाय करें...

क्या

न

करें...



क्या न करें वर्ष 2018 में

- * इस वर्ष अपनों के साथ वैचारिक मन भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद की मना नहीं है।
- * पारिवारिक दायित्वों के प्रति लापरवाही न बरतें।
- * आप जो कहेंगे वही ठीक है, ऐसा होता नहीं है। इसका अवलोकन जरूर करें।
- * किसी पर बिना कारण अंधविश्वास और किसी पर अकारण अविश्वास दोनों ही नुकसानदायक रहेंगे।

क्या उपाय करें वर्ष 2018 में

स्वास्थ्य में सुधार के लिए

- * ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
- * भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में पोशाक और चांदी की बांसुरी चढ़ाएं। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और संतान आपके अनुसार रहेगी।
- * नियमित ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए 5 पत्ते तुलसी निगल जाएं।

पारिवारिक सुख-शांति व बाधा निवारण के लिए

- * प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करें।
- * घर में तुलसी की पौध लगाएं व प्रातःकाल उसे जल दें व सांय काल उसके नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं।

आर्थिक सुदृढ़ता के लिए

- * हर रोज नित्यकर्म से निवृत्त हो स्नानोपरांत श्रद्धापूर्वक गाय के घी का दीपक जलाएं और 7 पाठ दुर्गा कवच के सात पाठ करें।
- * पूरे वर्ष हर गुरुवार को श्रद्धानुसार पीले फल, पीली मिठाई, पीले वस्त्र और श्रद्धानुसार गाय का घी किसी गरीब निर्धन सुहागिन स्त्री को दान में दे।

संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष 11 दाना लाल धागे में सोमवार के दिन शुभ महूर्त में धारण करें। स्वच्छता का ध्यान रखें।